

तकनीकी छात्रों के लिए शोध बेहद जरूरी

देहरादून। जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गुरुवार को विज्ञान प्रदर्शनी 'सृजन' का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि विद्वानों ने तकनीकी छात्रों के लिए शोध और प्रयोगात्मक सोच को जरूरी बताया।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने किया। उन्होंने कहा कि देश को प्रतिभाशाली इंजीनियरों की बेहद जरूरत है। यूटीयू कुलपति प्रो. दुर्ग सिंह चौहान ने कहा कि प्रदर्शनी में लगे साईंस मॉडल काफी उत्साहजनक हैं। उन्होंने विभिन्न स्टॉल पर जाकर मॉडलों का निरीक्षण किया और छात्रों की सरोहना की। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्घाटन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने किया। चैयरमैन एलडी सिंघल ने बताया कि आयोजन में जगदीप सिंह पहले, शैलेश नेगी दूसरे स्थान पर रहे। इनके अलावा स्वाति रावत और विकास विश्नोई के प्रदर्शन को भी सराहा गया। 'चार लाइनां' ने खूब गुदगुदाया। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का कविता पाठ भी शामिल था। सुरेंद्र शर्मा ने अपने खास अंदाज में कविताएं सुनाई तो श्रोता लोटपोट हो गए।

स

गर
को
स

2